



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2024

कार्तिक 3, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 38/2024/876/सात-न्याय-2-2024-131जी-2019

लखनऊ, 25 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०-321

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1887) की धारा 4, 13 और 14 की उपधारा (1) और प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1887) की धारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से परामर्श करके जिला प्रतापगढ़ में तहसील लालगंज अझारा के लिए सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (शासनादेश संख्या 10/2016/870/सात-न्याय-2-2016-85जी-2012, दिनांक 6 जुलाई, 2016 के द्वारा सृजित न्यायालयों में से) का, उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सृजन करते हैं और ऐसे न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमायें और बैठक का स्थान नियत करती हैं और राज्यपाल अग्रतर समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या ए-1104/सात-710-53, दिनांक 12 अप्रैल, 1956 की संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

1—क्रम संख्या 77 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	न्यायालय	राजस्व क्षेत्र (जिनसे अधिकारिता सीमाएं सृजित होती हैं)	बैठने का/(के) स्थान	संयुक्त कार्यालय	पद
1	2	3	4	5	6
77	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	जिला प्रतापगढ़ की तहसील अर्थात् कुण्डा एवं लालगंज अझारा के राजस्व क्षेत्र को अपवर्जित कर जिला प्रतापगढ़ का सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र।	प्रतापगढ़	—	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), प्रतापगढ़

2—क्रम संख्या 77 अ की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	न्यायालय	राजस्व क्षेत्र जिनसे अधिकारिता सीमाएं सृजित होती हैं	बैठने का/(के) स्थान	संयुक्त कार्यालय	पद
1	2	3	4	5	6
77-ब	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	जिला प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज अझारा का सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र।	लालगंज अझारा	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), लालगंज अझारा, जिला प्रतापगढ़

आज्ञा से,
विनोद सिंह रावत,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 38/2024/876/VII-Nyaya-2-2024-131G-2019, dated October 25, 2024:

No. 38/2024/876/VII-Nyaya-2-2024-131G-2019

Dated Lucknow, October 25, 2024

IN exercise of the powers under sections 4, 13 and sub-section (1) of section 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 (Act no. 12 of 1887) and section 5 of the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (Act no. 9 of 1887) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, in consultation with the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to create the Court of Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate at Tehsil-Lalganj Ajhara, in District-Pratapgarh (out of Courts created vide G.O. no. 10/2016/870/VII-Nyaya-2-2016-85G/2012, dated July 6, 2016) with effect from the date of taking over charge by the Presiding Officer of that Court and to fix the local limits of the jurisdiction and the place of sitting of such Court and the Governor is further pleased to make following amendments in the Schedule appended to Government notification no. A-1104/VII-710/53, dated April 12, 1956, as amended from time to time.

AMENDMENT

In the Schedule to the aforesaid notification,—

1. *For* the existing entry at serial no. 77, the following entries shall column-wise be *substituted*, namely :—

Sl. no.	Court	Revenue areas forming limits of jurisdiction	Place or Places of sittings	Combined offices	Title
1	2	3	4	5	6
77	Civil Judge (Senior Division)	Entire revenue areas of District-Pratapgarh, excluding the revenue area of Tehsil namely, Kunda and Lalganj Ajhara of the District Pratapgarh.	Pratapgarh	..	Civil Judge (Senior Division), Pratapgarh

2. *After* entry at serial no. 77 A, the following new entry column-wise shall be *inserted*, namely :—

Sl. no.	Court	Revenue areas forming limits of jurisdiction	Place or Places of sittings	Combined offices	Title
1	2	3	4	5	6
77-B	Civil Judge (Senior Division)	Entire revenue areas of Tehsil Lalganj Ajhara in District Pratapgarh.	Lalganj Ajhara	Additional Chief Judicial Magistrate	Civil Judge (Senior Division), Lalganj Ajhara in District Pratapgarh.

By order,
VINOD SINGH RAWAT,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 376 राजपत्र-2024-(932)-599+30=629-(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट) ।